



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8, 2003 (फाल्गुन 17, 1924)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8, 2003 (PHALGUNA 17, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं. ए-19014/4/2003-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री मनोज पांडे, भा. रा. से. (आयकर : 92) को दिनांक 28.01.2003 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं, समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर, 15 जनवरी, 2003 अपराह्न से गुजरात सरकार को वापस सौंप दी गई हैं।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/00658/3/29/92-प्रशा.-5--राष्ट्रपति ने श्री रविन्द्र नाथ दास, लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 20.01.2003 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/540/3/12/2002-प्रशा.-V--श्री रजनीश कुमार राय, भा. पु. सेवा (गुजरात : 1992), पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय

सं. डीपी/एडी.5/2003/704/3/9/2001-प्रशा.-5-श्री आर. एस. द्विवेदी ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2003 अपराह्न

से पुलिस अधीक्षक, कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/705/3/62/2002-प्रशा.-5-राष्ट्रपति ने श्री पी. कन्नप्पन, भा. पु. सेवा (तमिलनाडु : 1993) को 01.01.2003 पूर्वाह्न से 31.12.2006 तक चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/788/ए-19036/13/79-प्रशा.-5-श्री ए. के. श्रीवास्तव ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 2003 अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

गृह मंत्रालय
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. 18/18/97-प्रशा.-II-राष्ट्रपति जी, सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख कार्यालय के श्री के. वी. रविकुमार, सहायक परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख की पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (न्यायालयिक विज्ञान) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 9.4.2003 से 8.4.2004 तक अगले एक वर्ष (5वें वर्ष) के लिए बढ़ाते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, कन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. ओ.दो.-3596/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.-राष्ट्रपति जी, डा. मयूरेश कुमार पारीक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि. पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 13.01.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 9 बटा. के. रि. पु. बल में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.-3597/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.-राष्ट्रपति जी, डा. (मिस) मंजूला जमवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि. पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 20.01.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें कम्पोजिट अस्पताल, के. रि. पु. बल जम्मू में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.-3598/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.-राष्ट्रपति जी, डा. (श्रीमती) भारती जागीरदार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि. पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.01.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें कम्पोजिट अस्पताल, के. रि. पु. बल जम्मू में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.-3599/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.-राष्ट्रपति जी, डा. मनु सेठ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि. पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.01.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 85 बटा. के. रि. पु. बल में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

महानिदेशालय
कन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. ई-31013(3)/5/2002/कार्मिक-II/298-राष्ट्रपति, श्री एच. पी. एस. राठौर को 28 नवम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से के.ओ.सुब में सैद्धान्तिक रूप से सहायक कमान्डेन्ट/कार्य. के रैंक में नियुक्त करते हैं। तथापि इसे वेतन और भत्तों के बकाया के अतिरिक्त सभी उद्देश्यों के लिए नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाएगा।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, कन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 18 फरवरी 2002

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-138-इस कार्यालय के श्री सुरेन्द्र मोहन कपूर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 28.02.2003 (अपराह्न) को भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 02.02.1943 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 27.07.1965 है।

पूरन सिंह
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-139--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व श्री चमन भंडारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 03.02.2003 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

पूरन सिंह
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-140--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व श्री जय प्रकाश, लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 03.02.2003 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 21 फरवरी 2003

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-141--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व श्री प्रमोद कान्त शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 10.02.2003 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल
कोलकाता-700001, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. प्रशा.-1/1366-11/2002-2003/506--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल दिनांक 13.01.2003 के आदेश के तहत श्री तपन कुमार दत्ता-II, लेखा अधिकारी और श्री तपन भट्ट, लेखा अधिकारी को रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर प्रकार्यात्मक कोटि में पदोन्नति दी जाती है।

पदोन्नति पर उनका वेतन एफ.आर. 1(ए)(i) के तहत निर्धारित किया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में वे पदोन्नति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एन. एन. हालदार
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा)
पश्चिम बंगाल
(स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)

कोलकाता-700001, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. स्था.ले.प.(प्र.)/पेंशन/के.एम.जि./204/56/5980--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री किशोरी मोहन गायेन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.01.2003 (अपराह्न) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

बी. के. बनिक
उप-महालेखाकार (स्थानीय निकाय)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर-751001, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. स्था. आ.-53--दिनांक 3.2.2003 के का.आ.ग.सं. 1002 में किए गए पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने श्री सुरेश चन्द्र साहू, सहायक लेखा अधिकारी को भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2001 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 4.2.2003 (पूर्वाह्न) से लेखा अधिकारी पद पर एवं वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

अश्विनी कुमार मिश्र
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. स्था. आ.-54--दिनांक 3.2.2003 के का.आ.ग.सं. 1002 में की गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने श्री अक्षय कुमार साहू, सहायक लेखा अधिकारी को भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2001 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 4.2.2003 (अपराह्न) से लेखा अधिकारी पद पर एवं वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

अश्विनी कुमार मिश्र
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं. प्रशासन-V/9-86/V--महालेखाकार (लेखा व हकदारी), इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान में, हर एक के नाम के सामने दिखाई गई तारीख से, सहायक लेखा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती पी. के. राजम्मा 24.01.2003 पूर्वाह्न
2. श्रीमती पी. श्यामला कुमारी 03.02.2003 अपराह्न

अजायब सिंह
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं. 5/1/2003-सी.पी.आई.--जनवरी, 2003 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 1 अंक घट कर 483 (चार सौ तिरासी) अंक रहा।

आई. एस. नेगी
उप निदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
(लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. ए-19018/848/87-प्रशा. (राज.)--श्री एस. एम. अरोड़ा, उप-प्रधानाचार्य, लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र (उद्योग) नीलोखेड़ी (हरियाणा) से 1.1.2003 (पूर्वाह्न) से विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. ए-19018/1648/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर में अधीक्षक श्री के. सी. विशानानी को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुलबर्गा में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 3.2.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशासन)

कोयला और खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 18 फरवरी 2003

सं. 707/बी/ए-32013/1-निदे. (जी.)/2002-03/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, श्री एन. एस. वेंकटेश, भूवैज्ञानिक (वरि.), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को निदेशक (भूविज्ञान) के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेश तक 01.01.2003 (पूर्वाह्न) से प्रभावी नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-85, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. पीडी/15(1)/2001-आर-III/229--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती पार्वती बालासुब्रमण्यन, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को उन्नत की गई वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर दिनांक 03 फरवरी, 2003 से रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 18 फरवरी 2003

सं. पीडी/12(2)/2002-आर-III/239--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती पी. मीनाक्षी, सहायक लेखाकार, भा.प.अ. केन्द्र, को दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 (पूर्वाह्न) से 24 जनवरी, 2003 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु इसी अनुसंधान केन्द्र में तत्काल आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं. 21/3(1)/2002-सीसीएस/4--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री सी. जी. एस. नायर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई को दिनांक 07.01.2003 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (तारापुर) में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. 16/2(3)/2002-एसयूएस/76--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के सामान्य सेवा संगठन, कलपावकम में पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.08.2002 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान रु.
1.	श्री टी. लक्ष्मण सिंह	वैज्ञ. अधि-कारी/डी	वैज्ञ. अधि-कारी/ई	12000-375-16500
2.	श्री बी. पीचैकन्नु	वैज्ञ. अधि-कारी/डी	वैज्ञ. अधि-कारी/ई	12000-375-16500
3.	डॉ. पी. सोम-सुन्दरम	वैज्ञ. अधि-कारी/डी (चिकित्सा)	वैज्ञ. अधि-कारी/ई (चिकित्सा)	12000-375-16500
4.	डॉ. (श्रीमती) बी. सरोजादेवी	वैज्ञ. अधि-कारी/डी (चिकित्सा)	वैज्ञ. अधि-कारी/ई (चिकित्सा)	12000-375-16500

टी. एन. नायर
अवर सचिव

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 20 फरवरी 2002

सं. केट/प्रशासन/भर्ती-807(1)/1532/164--निदेशक, प्रप्रौके ने एस. नटराजन, सहायक लेखाधिकारी, आर. एम. पी., मैसूर को दिनांक 27.11.2002 की पूर्वाह से अगले आदेश होने तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखाधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा नियुक्त किया है।

ए. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 11 फरवरी 2003

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त-02/फ-114--महामहिम, राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के श्री पीयूष श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' को दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त-02/फ-115--महामहिम, राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के श्री आर.

डी. अय्यंगार, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' को दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त-02/फ-116--महामहिम, राष्ट्रपतिजी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के श्री के. गोठी, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' को दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासनिक अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक फरवरी 2002

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री के. एन. तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	31.1.2002	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. 12025/1/2001-स्था.-I--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्री चन्द्रकिशोर सूत्रधार को नागर विमानन महानिदेशालय में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न क्षमता में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 21 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं और इन्हें अनुसंधान एवं विकास निदेशालय, मुख्यालय में तैनात किया जाता है।

2. श्री सी. के. सूत्रधार दिनांक 21.1.2003 से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन होंगे।

रामभारी
उपनिदेशक, प्रशिक्षण
नूतन महानिदेशक नागर विमानन

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स नाहर पल्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

जयपुर-1, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/12446--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स नाहर पल्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आर. वी. इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-1, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. एल.सी./560(3)/14705--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर. वी. इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वेस्ट ब्लॉक फिशरीज प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/15902/787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स वेस्ट ब्लॉक फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ज्योति फार्मेटिक लिमिटेड के
सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/12821/799--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स ज्योति फार्मेटिक लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वर्धमान फैब्रिकेटर्स (प्राईवेट)
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/एफटीएस/8041/804--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स वर्धमान फैब्रिकेटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सोरभ कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/9351/809--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स सोरभ कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स राजस्थान स्टील्स प्रतापगढ़
(प्राईवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560/1991/819--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स राजस्थान स्टील्स प्रतापगढ़

(प्राइवेट) लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साँचन फायटोकेमिकल्स प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/7736/धारा 560(3)/4446--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स साँचन फायटोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

स. टी.एस.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी। यह अधिसूचना विभाग के परिपत्र सं. 1/5/2000-सीएल. 5 दिनांक 20 सितम्बर, 2000 के अनुसरण में जारी की गई।

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	86911	मैसर्स बिरका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	87552	मैसर्स करण जज ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3.	70906	मैसर्स रिकोचेट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	82545	मैसर्स सनस्टार विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चम्बल फारेस्ट (इण्डिया)
लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/11812/धारा 560(3)/4559--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स चम्बल फारेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमकार प्रिंट्स प्राइवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./35299/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स ओमकार प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. तारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीवनदीप फाइनेन्स एण्ड
इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/3860/धारा 560(3)/4568--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स जीवनदीप फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भवानी कृपा सीमेन्ट प्राइवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./38001/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स भवानी

सं. आर.ओ.सी./29404/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जिनराज मार्केटिंग एण्ड एग्रीफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परांजय मरकेन्टाइल लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./31805/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स परांजय मरकेन्टाइल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स फेनील फिनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./29389/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स फेनील फिनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत जल्द मार्ग निर्देश योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स फेनील मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./30649/560(3)/03--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग,

2—486 GI/2002

भारत सरकार के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. वी दिनांक 20.09.2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को पढ़ा। इस सम्बन्ध में इस आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे।

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स फेनील मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निश्चित प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./6351/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स निश्चित प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अबील कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./4789/एस.टी.ए./560/2002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अबील कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. ए. वारडे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नन्दन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं. 162/51043/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का उप रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 176/63976/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वर्कमेन्स एजुकेशन एण्ड वेलफेयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जसपाल ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. 177/86474/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जसपाल ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वन लीर पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. 70/107472/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वन लीर पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिनशाम ऑटो कन्ट्रोस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं. 180/74264/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दिनशाम ऑटो कन्ट्रोस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. चन्द्रा
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. कं.सं./560/3/NKR/एस.सं./2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	8430	मैसर्स मामेन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	14925	मैसर्स मलनाड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	9916	मैसर्स क्वार्टर्स स्ट्रैप्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी
कम्पनियों का उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शेरा लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 18 फरवरी 2003

सं. 17647/पी.सी.-II/560/2001--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शेरा लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. जयकुमार
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिलकिंगटन तमिलनाडु लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 18 फरवरी 2003

सं. 37476/पी.सी.-IV/560(5)/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिलकिंगटन तमिलनाडु लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वसंत कुमार ऐल
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 29th January 2003

No. A-19014/04/2003-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Manoj Pandey, IRS (IT:92), as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 28th January, 2003 or until further orders, whichever is earlier.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 14th February 2003

No. DPAD5/2003/540/3/12/2002-AD.V—Services of Shri Rajnish Kumar Rai, IPS (GJ:1992), Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of Gujarat with effect from the afternoon of January 15, 2003 on premature repatriation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.) CBI

No. DPAD5/2003/658/3/29/92-AD.V—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Nath Dash, PP, CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 20-1-2003 and until further orders.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.) CBI

No. DPAD5/2003/704/3/9/2001-AD.V—Shri R. S. Dwivedi relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of January 31, 2003.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.) CBI

No. DPAD5/2003/705/3/62/2002-AD. V—The President is pleased to appoint Shri P. Kannappan, IPS (TN:1993), as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 1-1-2003 for a period of four years upto 31-12-2006 or until further orders, whichever is earlier.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

The 19th February 2003

No. DPAD 5/2003/188/A-19036/13/79-AD. V—Shri A. K. Srivastava relinquished the charge of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31 January, 2003 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 24th February 2003

No. 18/18/97-Adm. II—The President is pleased to extend the deputation period of Shri K. V. Ravi Kumar, Assistant, Government Examiner of Questioned Documents Office of the Government Examiner of Questioned Documents on the post of Senior Scientific Officer Forensic Science in the Bureau of Police Research & Development, New Delhi for a further period of one year (5th year) with effect from 9-4-2003 to 8-4-2004.

A. K. SOOD
Assistant Director (Adm.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003 the 17th February 2003

No. O.II-3596/03-CRC(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Mayuresh Kumar Parcek as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 13-1-2003 till further order. He is posted to 09 Bn. CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DGP (Pers. I)

No. O.II-3597/03-CRC(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Manjula Jammal as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 20-1-2003 till further order. She is posted to Composite Hospital, CRPF, Jammu, CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DGP (Pers. I)

No. O.II-2598/03-CRC(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Bharti Jagirdar as Medical Officer in Central Reserve Police Force

in temporary capacity from the forenoon of 24-1-03 till further order. She is posted to Composite Hospital, CRPF, Jammu, CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O-II-3599/03-CRC(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Manu Seth as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 24-1-2003 till further order. He is posted to 85 BN, CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-110003, the 19th February 2003

No. E-31013 (3)/5 / 2002 / Pers. II/298—The President is pleased to appoint Shri H.P.S. Rathor as Assistant Commandant (Exe), CISF notionally w.e.f. the forenoon of 28th November 1994. This will, however, be considered as regular promotion for all purposes except the arrears of pay and allowances.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS
DEPARTMENT**

**(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT CENTRAL REVENUES)**

New Delhi-110002, the 18th February 2003

No. Admn. I/O.O. 138—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Surender Mohan Kapoor, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India on 28-02-2003 (AN).

His date of birth is 2-2-1943 and he joined the Government service on 27-7-1965.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

No. Admn. I/O.O. 139—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi, is hereby appoints Shri Chaman Bhandari, Assistant Audit Officer of this Office to officiate as Audit Officer in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 w.e.f. 3-2-2003 (F/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

The 19th February 2003

No. Admn. I/O.O. 140—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi, hereby appoints Sh. Jai Prakash, Audit Officer of this office to officiate as Sr. Audit Officer in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 3-2-2003 (F/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

The 21st February 2003

No. Admn. I/O. O. No. 141—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Sh. Pramod Kant Sharma, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7500-250-12000 w.e.f. 10-02-2003 (A/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A & E), WEST BENGAL**

Kolkata-700001, the 14th January 2003

No. Admn.-I/1366-II/2002-2003/506—Under orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 13-01-2003, Shri Tapan Kumar Dutta-II, Accounts Officer and Shri Tapabrata Bhar, Accounts Officer are promoted to the higher functional grade of Senior Accounts Officers in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the date of taking over charge.

On promotion their pay will be fixed under FR I(a)(i) and therefore, they may exercise their options in this regard within one month from the date of this order.

N. N. HALDER
Dy. Accountant General (Admn.)

**ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL BODIES
AUDIT), WEST BENGAL
(LOCAL AUDIT, DEPARTMENT)**

Kolkata, the 24th February 2003

No. LA/Admn/Pen/KMG/204/56/5980—Shri Kishori Mohan Gayen, Assistant Audit Officer of the Office of Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 31-01-2003 (A/N).

B. K. BANIK
Deputy Accountant General (Local Bodies),
West Bengal

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A & E) ORISSA**

Bhubaneswar., the 24th February 2003

No. E.O. 53—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office O.O.C. No. 1002, dated 03-02-2003, the Accountant General (A & E), Orissa has been pleased to promote Sri Suresh Chandra Sahoo, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date of his taking over charge i.e. 04-02-2003 (F.N.) as per the provision in the IA&AD (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2001.

The promotion is on adhoc basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any and without prejudice to the claims of his seniors.

A. K. MISHRA
Deputy Accountant General (Admn.)

No. E.O. 54—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office O.O.C. No. 1002 dated 3-2-2003, the Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to promote Shri Akhaya Kumar Sahoo, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date of his taking over charge i.e. 3-2-2003 (A.N.) as per the provision in the IA & AD (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2001.

The promotion is on adhoc basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any and without prejudice to the claims of his seniors.

A. K. MISHRA
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A & E), KERALA**

Trivandrum, the 21st February 2003

No. Admn. V/9-86/V—The Accountant General (A & E) has been pleased to appoint the following Assistant Accounts Officers of this Office as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the dates noted against each :—

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Smt. P. K. Rajamma | 24-1-2003 (FN) |
| 2. Smt. P. Syamalakumari | 3-2-2003 (AN) |

AJAIB SINGH
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

**MINISTRY OF LABOUR
(LABOUR BUREAU)**

Shimla-171004 the 28th February 2003

No. 5/1/2003-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982-100 has decreased by 1 point to stand at 483 (four hundred & eighty three) for the month of January, 2003.

I. S. NEGI
Dy. Director

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER**

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 19th February 2003

No. A-19018/848/87-Admn(G)—Shri S.M. Arora, Vice Principal, Integrated Training Centre (Industries), Nilokheri (Haryana) under Small Industry Development Organisation voluntarily retired from Government service under Special Voluntary Retirement Scheme with effect from 1-1-2003 (FN).

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Adma.)

The 20th February 2003

No. A-19018/1648/2003-Admn.(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri K. C. Vishnani, Superintendent, Small Industries Service Institute, Kanpur as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Branch Small Industries Service Institute, Gulbarga with effect from the forenoon of 3-2-2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

**MINISTRY OF COAL AND MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)**

Kolkata-700016, the 18th February 2003

No. 707/B/A-32013/1-Dir(G)/2002-03/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri N. S. Venkatesh, Geologist (Sr.), Geological Survey of India, on promotion to the post of Director (Geol.), in the same Department and on

pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12000-75-16500 with effect from 1-1-2003(FN) on regular basis until further order.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General, GSI.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
PERSONNEL DIVISION

Mumbai-400085, the 17th February 2003

Ref. PD/4(2)/2003-R-III/229—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Parvathi Balasubramanian, Private Secretary (Non-Secretariat) to the upgraded post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 3-2-2003 in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000, in this Research Centre until further orders.

K. C. DIVAKARAN,
Dy. Establishment Officer

The 18th February, 2003

Ref. PD/12(2)/2002-R-III/239—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. P. Meenakshi, Asstt. Accountant, as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 24-10-2002 (FN) to 24-1-2003 (AN).

K. C. DIVAKARAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 6th February 2003

No. 21/3(1)/2002-CCS/4—The President is pleased to appoint Shri C. G. S. Nair, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000-13500), DAE Secretariat, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000-15200) in BARC Tarapur with effect from the forenoon of 07-01-2003, until further orders.

UMA MAHADEVAN
Dy. Secy.

Mumbai-400001, the 19th February 2003

No. 16/2(3)/2002-SUS/76—The President is pleased to appoint the following officers in General Services Organisation, Kalpakkam of this Department, on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 1-8-2002 (FN) until further orders :—

Sr. No.	Name	Present Grade	Grade on Promotion	Scale of pay
	Shri/Dr.			
1.	T. Lakshman Singh	SO/D	SO/E	Rs. 12000-375-16500
2.	V. Pichaiannu	SO/D	SO/E	Rs. 12000-375-16500
3.	P. Somasundaram	SO/D (Medical)	SO/E (Medical)	Rs. 12000-375-16500
4.	(Smt.) V. Sarojadevi	SO/D (Medical)	SO/E (Medical)	Rs. 12000-375-16500

T. N. NAIR,
Under Secy.

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 20th February 2003

No. CAT/Admn/Rect-807(I)/(1532)/164—The Director, CAT hereby appoints Sri S. Nadarajan, Assistant Accounts Officer, RMP Mysore to officiate as Accounts Officer in the scale of pay Rs. 7500-250-12000 with effect from the forenoon of 27th November 2002 in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

A. PATTABIRAMAN
Chief Administrative Officer

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Mumbai-400705, the 11th February 2003

No. BRIT/9/17/Aug 02/F-114—The President is pleased to appoint Sri Piyash Srivastava, Scientific Officer/Engineer Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in the the same unit in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 1-8-2002 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

No. BRIT/9/17/AUG 02/F-115—The President is pleased to appoint Shri R. D. Iyengar, Scientific Officer/Engineer Grade 'F' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000 in the same unit in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 1-8-2002 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

No. BRIT/9/17/AUG 02/F-116—The President is pleased to appoint Shri K. K. Gothi, Scientific Officer/Engineer Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in the same unit in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 1-8-2002 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500016, the 18th February 2003

No. AMD-51(59)/2002-Pen/167—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned :—

S. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri K. N. Tiwary, Scientific Officer/G	31-1-2003	Superannuation

K. DAMODARAN
Chief Administrative and Accounts Officer

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 10th February 2003

No. A.12025/1/2001-E.I.—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Chandra Kishore Sutradhar to the post of Scientific Officer in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 in the Civil Aviation Department with effect from 21st January, 2003 and until further order and posted to R & D Directorate, Hqrs.

2. Shri C. K. Sutradhar will be on probation for a period of two years from 21-01-2003.

RAM DHARY
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
O/o THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nahar Pulses Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 17th February 2003

No. 560(3)/LC/12446/1273—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nahar Pulses Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AAR VEE Investment Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 17th February 2003

No. 560(3)/LC/14705/1282—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. AAR VEE Investment Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. West Bloc Fisheries Pvt. Ltd.

Jaipur, the 19th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/15902/787—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. West Bloc Fisheries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jyoti Farmtech Ltd.

Jaipur, the 20th February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/12821/799—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jyoti Farmtech Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vardhman Fabricators Pvt. Ltd.

Jaipur, the 21st February 2003

No. ROC/560/8041/804—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Vardhman Fabricators Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saurabh Capital Services Pvt. Ltd.

Jaipur, the 21st February 2003

No. ROC/JPR/FTS/560/9351/809—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name

of M/s. Saurabh Capital Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Steels Pratabgarh Pvt. Ltd.

Jaipur, the 24th February 2003

No. ROC/560/1991/819—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Rajasthan Steels Pratabgarh Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sachin Phytochemicals Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 19th February 2003

No. ROC-G/7736/Sec.560(3)/2003/4446—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sachin Phytochemicals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
M. P. & Chhattisgarh,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chambal Forest (India) Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 20th February 2003

No. ROC-G/11812/Sec.560(3)/2003/4559—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chambal Forest (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeevandeep Finance & Investment Company
(India) Ltd.

Gwalior-474009, the 21st February 2003

No. ROC-G/3860/Sec.560(3)/2003/4568—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jeevandeep Finance & Investment Company (India) Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kolkata-700420 The 2003

No. TS—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 90 (ninety) days from the date hereof, the name of the following companies unless any objection is received from any person will be struck off the Register and the said companies will be dissolved. This notification is issued pursuant to Department's Circular No. 1/5/2000-CL. V dated 20th September, 2000.

Co. No.	Name of the Company
86911	Birka Exports Pvt. Ltd.
87552	Karan Judge Trexim Pvt. Ltd.
70906	Ricochet Sales Pvt. Ltd.
82545	Sunstar Vincom Pvt. Ltd.

G. MUKHOPADHYAY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Omkar Knits Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/35299/560(3)/2002/4310—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Omkar Knits Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavani Krupa Cements Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/38001/560(3)/2002/4314—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bhavani Krupa Cements Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Matru Marketing Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/36319/560(3)/2002/4316—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Matru Marketing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Twinkle Finstock Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/19709/560(3)/2002/4319—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Twinkle Finstock Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krupalu Finance and Estate Developers
Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 10th February 2003

No. ROC/31150/560(3)/2002/4322—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Krupalu Finance and Estate Developers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Popular Diamonds (India) Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 11th February 2003

No. ROC/12337/560(3)/2002/4335—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Popular Diamonds (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grow Computer Education Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 11th February 2003

No. ROC/36024/560(3)/2002/4338—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Grow Computer Education Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dishman Investments Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 11th February 2003

No. ROC/33522/560(3)/2002/4332—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of

M/s. Dishman Investments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jinraj Marketing and Agrofarms Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 13th February 2003

No. ROC/29404/560(3)/2002/4348—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jinraj Marketing and Agrofarms Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paranjay Mercantile Ltd.

Ahmedabad-380013, the 13th February 2003

No. ROC/31805/560 (3)/2002/4351—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Paranjay Mercantile Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Fast Track Scheme and of
M/s. Fenil Finstock Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 13th February 2003

No. ROC/22389/560(3)/2001/4357—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1-5-2000 Cl. V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc. having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Fenil Finstock Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and Application under Fast Track Scheme and of M/s. Fenil Motors Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 13th February 2003

No. ROC/30649/560/(3)/2001/4361—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20-9-2000 of the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above application may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof. M/s. Fenil Motors Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Nishchint Properties Ltd.

Ahmedabad-320013, the 17th February 2003

No. ROC/6351/560(3)/2002/4386—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nishchint Properties Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Abeel Construction Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380013, the 17th February 2003

No. ROC/4789/560(3)/2002/4389—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Abeel Construction Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. A. VARDE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Nandan Investments Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 14th February 2003

No. 162/51043/560-773 Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof, the name of M/s. Nandan Investments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Nipama Financial and Investment Company Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 11th February 2003

No. 164/54688/560-1167—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. Nipama Financial and Investment Company Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Khola Investments Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 174/95755/560/1228—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Khola Investments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Alkaloid Finance and Leasing Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 171/75263/560/1231—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Alkaloid Finance and Leasing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aurella Trading Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 175/119184/560/1234—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Aurella Trading Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hima Holdings Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 173/94243/560/1237—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hima Holdings Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vazir Sales Agencies Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 166/60812/560/1240—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Vazir Sales Agencies Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sindhu Publications Ltd.

Mumbai 400002, the 13th February 2003

No. 163/14330/560/1243—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of

M/s. Sindhu Publications Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Polymers Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 165/58712/560/1245—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Western Polymers Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yogya Trading Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 170/74603/560/1249—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yogya Trading Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mackerel Trading Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 169/74385/560/1252—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mackerel Trading Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramada Trading & Investment Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 163/72447/560/1255—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Ramada Trading & Investment Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vantage Dyes and Chemicals Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 13th February 2003

No. 172/77507/560/1259—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vantage Dyes and Chemicals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Afcons Workmens Education & Welfare Co.
Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 20th February 2003

No. 176/63976/560/1688—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Afcons Workmens Education & Welfare Co. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaspal Overseas Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 20th February 2003

No. 177/86474/560/1682—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jaspal Overseas Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Van Leer Packaging Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 24th February 2003

No. 70/107472/560/1835—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Van Leer Packaging Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company shall be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dinsham Auto Contros Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, 24th February 2003

No. 180/74264/560/1845—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Dinsham Auto Contros Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. CHANDRA
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore-560034, the 13th December 2003

No. STP/NKR/560 (3)/2003—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to contrary, will be struck off from the

Register and the said Companies will be dissolved :—

Co. No.	Name of the Company
8430	Mammen Investments Pvt. Ltd.
14925	Malnad Developers Pvt. Ltd.
9916	Quartz Straps Pvt. Ltd.

B.A.M.P. RATHNASAMI
Dy. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shera Leathers Pvt. Ltd.

Chennai-6, the 18th February 2003

No. DN/17647/S.560/PC.II/2001—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shera Leathers Pvt. Ltd. unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. JAYAKUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pilkington Tamilnadu Pvt. Ltd.

Chennai-6, the 18th February 2003

No. DN. 37476/PC/IV/560(5)/2003—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pilkington Tamilnadu Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

VASANTHA KUMAR AIL
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 2003